



अगाडको आवरण पृष्ठ
भगवान क दुलार




लेखक: सुरेश कुमार तवारी
तह ६, कक्षा २
भोजपुरी




हमर नाम कौशल ह। हम गाँव मे रहेनी। हमरा घर मे माई बा। अउरी बाबु बारन।



घर के पछि बगैचा बा। बगैचा बारा नमिन बा। बगैचा मे फुल बा। फुल बडा सुनर बा।



बगैचा से फुल लेयइनी।
फुलके माला बनइनी। माला बनाके मंदरि गइनी। मंदरि जाके पुजा कइनी।



मंदिर मे भगवान के माला लगइनी। माला लगाके ध्यान कइनी। ध्यान मे डुब गइनी।
तब प्रणाम कइनी।



भगवान् प्रकट भइलन। तब हमार आँख खुलल। तब देख के डर गइनी। तब फेन
प्रणाम कइनी।



तब भगवान कहलन। बोल केतना धन दी। तब हम कहनी। हमरा धन ना चाही।



हम कहनी वदिया चाही तब भगवान कहलन। वदिया से का होइ। तु धन माग।



तब हम कहनी। धन हरदम ना रही। वदिया से धन होइ।
वदिया से धन कमाएम।



तब हम कहनी। वदिया से ज्जान होइ। वदिया से बुद्धी होइ।
वदिया से बडका आदमी होयम।



तब भगवान बर्दिधा देलन।
वर्दिधा देके चल गेलन। तब मंदरि से अइनी। तब खुशी भइनी।



खुश होके पढे गइनी। पढके बडका आदमी भइनी। आदमी होके पैसा कमइनी। पैसा
कमाके खुश भइनी।

शीर्षक पृष्ठ

भगवान क दुलार

Images on pages Front Cover, १, ११ by International

Illustrations: The Art Of Reading 3.0, © 2009 SIL

International. CC-BY-ND 3.0.

Images on pages २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० by © 2019 Curriculum

Development Center of Nepal.

तहगत, तह ६

This book has been developed under the Enabling Writers

Project with the support of the Curriculum Development

Centre-Ministry of Education, Science and Technology Nepal,

Language Commission- Government of Nepal, Rural

Development Center-Nepal and World Education.

भोजपुरीNepal



<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>तपाईंले यस रचनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईंले यस रचनालाई समायोज गर्न वा यसमा आफ्नो तर्फबाट थपथाप गर्न पाउनुहुन्छ।

तपाईंले लेखक, चित्रकार, इत्यादिको प्रतिलिपि अधिकार सूचना र नाम राख्नुपर्छ।

Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation.

USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

अगाडको आवरण पृष्ठको भक्तिपट्टी

यस पुस्तकको बारेमा: भोजपुरी भाषामा तयार गरिएको यो पुस्तक कक्षा २ मा अध्ययनरत भाइबहनीहरूका लागि हो। यो पुस्तक देवनागरी लिपिका सबै वर्ण र मात्रा सकिसकेका बालबालिकाको स्वतन्त्र पठनका लागि तयार पारिएको हो। पढाइ सीपको विकास गर्नका लागि यस पुस्तकलाई शिक्षकले नयाँ शब्द सिकाउन, नमुना पठन गर्न र बोध शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

The End

